

किसानों को पैसा न दे सकी है, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना भी अति आवश्यक है।

(v) Industrialisation of Saldpur constituency of Uttar Pradesh.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री का ध्यान संसदीय क्षेत्र सैदपुर की वर्तमान गरीबी और भुखमरी की ओर ले जाना चाहता हूँ। यह क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, जौनपुर तथा वाराणसी का ग्रामीण पिछड़ा इलाका है। यहां आठ लाख मतदाता हैं। इनमें पच्चीस प्रतिशत लोग खेती करते हैं। शेष लोग खेतों और मजदूरी पर निर्भर हैं। कृषि योग्य भूमि जनसंख्या की तुलना में यहां कम है। इसी कारण 45 प्रतिशत लोग बेकारी तथा असमर्थता की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। 20 प्रतिशत लोग आज एक वक्त खाना खाते हैं। कोई उद्योग यहां नहीं है। जौनपुर जनपद में केराकत और व्यालमी नामक दो विधान सभाओं तीन लाख मतदाताओं से बनी हैं। गोमती और राई नदी इसके बीच से गुजरती हैं। इसके भयानक बाढ़ से लाखों रुपये की फसल बर्बाद प्रतिवर्ष होती है।

मान्यवर, जकखनियां और सादात गाजीपुर की दो विधान-सभाएं हैं। यदि यहां कोई केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से बड़ा तीन-चार औद्योगिक कारखाना नहीं खोला गया तो स्थिति बड़ी गम्भीर हो जायेगी। यहां कागज, खाद, अल्युमिनियम आदि का कारखाना सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। दुग्ध और खोए के वर्तमान उत्पादन को देखते हुए गुजरात के अमूल जैसा भी कारखाना स्थापित किया जा सकता है। ईंट के भट्टे के साथ ही बुनकरों को सहायता देकर हैंडलूम एवं अन्य इसी प्रकार के लघु उद्योगों को भी यहां विकसित किया जा सकता है।

अतः मैं उद्योग मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे तुरन्त सैदपुर के गरीबों की मुक्ति के लिए यहां के औद्योगिककरण के सम्बन्ध में सक्रिय हों।

(vi) Need for Improving the working conditions of Medical representatives.

DR. A. KALANIDHI (Madras Central) : There are about 20,000 medical representatives all over India engaged in the Organised and unorganised Drugs & Pharmaceutical Industry. Their services are terminated without assigning any reasons. They are transferred on whims and fancies of the Management, and without minimum bonus. Normally, a medical representative has to work for 14 to 16 hours daily. But, no over-time is allowed to them. All the companies in this industry should be categorised according to the sales turnover. The fair wages committee has suggested that the minimum wages of an employee should be somewhere between the needbased wage and living wage as envisaged in the Constitution of India. The 15th Labour Conference recommended a formula for the need based wage. While deciding the minimum wages of the sales promotion employees including the medical representatives, these two points should be taken into consideration. When the charter of demands submitted in 1978 by the medical representatives failed they agitated. Then, the Government of India constituted in 1980 a National Tripartite Committee. There were negotiations in 1982 and a report was submitted to the Government of India. Even after a lapse of about 14 months, the report has not been published and no action taken on it for the betterment of these Medical Representatives. I, therefore, request the Central Government to immediately publish the report and take effective follow up action to implement its recommendations.

(vii) Demands of ticket checking staff of Indian Railways.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): Today, the ticket checking staff working in Indian Railways are sitting on 24 hours mass fasting...

श्री राम प्यारे पनिका (राबट्सगंज) : सभापति महोदय, आज शास्त्री जी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य हमको बराबर उपदेश देते रहे हैं कि हिन्दी में बोलो, क्या आज उनके लिए जरूरी हो गया है कि अंग्रेजी में बोलें? उन्हें तो हिन्दी में बोलना चाहिए।